



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2365]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2012/अग्रहायण 19, 1934

No. 2365]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2012/AGRAHAYANA 19, 1934

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

(उत्प्रवास अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2012

का.आ. 2865(अ).—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. के. कटारिया, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, चंडीगढ़ में सहायक को, श्री पी. मालाकर, उत्प्रवास संरक्षी (चंडीगढ़) के अवकाश पर होने के कारण, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, में एक दिन, अर्थात् 23-10-2012 के लिए उत्प्रवास संरक्षी, चंडीगढ़ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

[फा. सं. जेड-11025/27/2012-उत्प्रवास]

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(EMIGRATION SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2012

S.O. 2865(E).— In exercise of the power conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 Shri S.K. Kataria, Assistant in the office of the Protector of Emigrants, Chandigarh is hereby authorized to officiate as Protector of Emigrants, Chandigarh for one day i.e. 23-10-2012 being on leave of Shri P. Malakar, POE (Chandigarh)

[F.No. Z-11025/27/2012-Fmig.]

ARVIND KUMAR, Under Secy.